

**भारत निर्वाचन आयोग**  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 579/प्रिंटिंग/2015/कम्यूनिकेशन

तारीख 6 जून, 2016

सेवा में,

<b>1</b>	मैसर्स सोना प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड एफ 86/1, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020	<b>2</b>	मैसर्स आई जी प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड 104, डी एस आई डी सी कॉम्प्लेक्स ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली - 110020
<b>3</b>	मैसर्स होलीफेथ इंटरनेशनल (प्राइवेट) लिमिटेड, गुलाब भवन, 6, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-02	<b>4</b>	मैसर्स जनरल स्ट्रीट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, सी-3/317, तीसरा तल, प्लॉट सं. 72, मिलन विहार, इंद्रप्रस्था एक्सटेंशन, दिल्ली- 92
<b>5</b>	मैसर्स रॉयल प्रेस, 1799, दूसरा तल, परसादी गली, कोटला मुबारकपुर, डी-57 के सामने, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-1, नई दिल्ली - 3	<b>6</b>	मैसर्स शाक्यम इंडिया इंटरप्राइजेज, प्लॉट नं. 170, भू-तल, पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली

**विषय :- स्वीप संग्रह की 1200 प्रतियों के मुद्रण के संबंध में**

महोदय/महोदया,

स्वीप संग्रह की 1200 प्रतियों के मुद्रण के लिए, आयोग के पैनल में शामिल प्रिंटर से सीलबंद निविदाएं (अनुबंध 'क' के अनुसार) आमंत्रित की जाती हैं। कार्य का विनिर्देशन निम्नलिखित है :-

**प्रतियों की संख्या :- 1200**

**पृष्ठों की संख्या :- 150 (+/- 10 प्रतिशत)**

**आकार :- "7 × 9.5"**

**गुणवत्ता**

**(आंतरिक पृष्ठ) :- 130 जी एस एम मैग्ना मैट**

**(आवरण पृष्ठ) :- 300 जी एस एम लेमिनेशन मैट**

**बाइंडिंग :- सेक्शन सिलाई कवर ड्राउन**

**प्रिंटिंग**

**(आंतरिक पृष्ठ) :- दो रंग**

**(आवरण पृष्ठ) :- बहु रंग**

**आवरण डिजाइन और**

**आंतरिक पृष्ठ ले आउट**

**एवं डिजाइन :-** पेशेवर के माध्यम से चयनित एजेंसी द्वारा किया जाएगा/प्रदान किया जाएगा।

2. उपर्युक्त विनिर्देशनों में किसी परिवर्तन की स्थिति में, भुगतान अनुपात आधार पर किया जाएगा। इच्छुक फर्म सीलबंद निविदा को अधोहस्ताक्षरी को संबोधित करके तारीख **14 जून, 2016 (मंगलवार)** तक दोपहर **12:00** बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। सीलबंद निविदाओं को उसी तारीख को अपराह्न **02:45** बजे कमरा सं. **308** में खोला जाएगा। आवश्यक निबंधन एवं शर्तें इसके साथ संलग्न हैं। संलग्न निबंधनों एवं शर्तों को पूरा नहीं करने वाली निविदाओं को सरसरी तौर पर अस्वीकार किया जाएगा। **कोट की गई दरों में सभी कर सम्मिलित होने चाहिए।**

ह/-

(एस. के. दास)

अवर सचिव

दूरभाष: **011-23052082**

ईमेल: [sumand34@gmail.com](mailto:sumand34@gmail.com)

## निबंधन एवं शर्ते

1. विनिर्देशनों के अनुरूप कागज का नमूना निविदा के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
2. कार्य आबंटन के बाद, फर्म को सर्वप्रथम अनुमोदन के लिए प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि यह पाया जाता है कि कार्य अपेक्षित विनिर्देशों के अनुसार नहीं किया जा रहा है और या यदि निबंधनों एवं शर्तों को पूरा नहीं किया गया है तो आयोग को सौंपे गए कार्य को रद्द करने और फर्म पर शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
3. आयोग, फर्म को कोई अग्रिम भुगतान नहीं करेगा। फर्म को संपूर्ण कार्य अपनी लागत से करना होगा और भुगतान कार्य को संतोषजनक ढंग से पूरा करने तथा इस संबंध में बिल को प्रस्तुत करने के बाद ही किया जाएगा।
4. कार्य पूरा करने के लिए समय, प्रमाण के अनुमोदन की तारीख से ठीक 5 दिवस है।
5. आयोग आदेश को रद्द कर सकता है, यदि अपेक्षित मदों का आपूर्ति समय पर नहीं की जाती है या आयोग द्वारा परिकल्पित विनिर्देशनों को पूरा किया जाता है।
6. आयोग को किसी या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा। आयोग कार्य आदेश देने से पूर्व निबंधनों एवं शर्तों को परिवर्तित भी कर सकता है।

(एस. के. दास)  
अवर सचिव

वित्तीय बोली

बोली लगाने वाले को आयोग द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों/सामग्री के संकलन, डिजाइनिंग, फॉर्मेटिंग, प्रूफरीडिंग, फोटो एडिशन, मुद्रण आदि सहित सभी लागतों को सम्मिलित करना चाहिए।

**उल्लिखित कार्य के लिए कुल मूल्य :**  
**(सभी करों सहित)**

उपर्युक्त विनिर्देशनों में किसी परिवर्तन की स्थिति में, भुगतान अनुपात आधार पर किया जाएगा।

हस्ताक्षर :  
नाम :  
मोबाइल नं. :